

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2024 — अश्विन 5, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-6/2024/एक-6. — इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा “मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” का पुनर्गठन किया गया था। राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:—

3— प्राधिकरण का गठन—

प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगा:—

1	माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	क्षेत्र के माननीय विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित)	उपाध्यक्ष
3	राज्य मंत्री मण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगण	सदस्य
4	प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित सांसद	सदस्य
5	प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् राज्य सभा सांसद	सदस्य
6	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र— 15 लैलूंगा 18 खरसियां 19 धरमजयगढ़ 20 रामपुर 21 कोरबा 22 कटघोरा 23 पाली-तानाखार 24 मरवाही 55 बिन्द्रानवागढ़ 56 सिहावा 60 डौंडीलोहारा 78 मानपुर-मोहला	सदस्य
7	प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
8	आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम 2 समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनित)	सदस्य
9	मुख्य सचिव	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य
11	माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य-सचिव

प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.